

लोकधारा का पुण्य-प्रवाह

# भारत की नदियाँ

श्यामसुन्दर दुबे



स  
ज  
ही  
हो  
ब  
नि  
स  
हि  
में  
उ  
वि  
अं  
बा  
अं  
स  
रहे

प्रकाशक : ग्रंथलोक  
10296, लेन न. - 1 वेस्ट गोरखपार्क  
शाहदरा, दिल्ली - 110032  
फोन नं. 55829441,  
मो. 9868472675

ISBN : 81-88567-41-8

ज  
रह  
अ

मूल्य : 170/- रुपये

संस्करण : 2008

लेखक : श्यामसुंदर दुबे

में  
र्भ  
कृ  
अ

मुद्रक : क्वालिटी ऑफसेट  
नवीन शाहदरा  
दिल्ली-110032

अ  
छ  
वि  
रु  
वे  
पु  
नि

शब्दांकन :  
मेगा ग्राफिक्स  
नई दिल्ली-110002



## अनुक्रमणिका

■ खण्ड - एक : नदी -आमुख	9 - 42
1. धरती की वत्सल अनुभूतियों से	11
2. पहाड़ों की गंभीरता का उजलापन	23
3. पाल-तनी-नावों से स्मृतियाँ	33
■ खण्ड - दो : नदी - विस्तार	43 - 125
सिंधु	45
सरस्वती	47
गंगा	51
यमुना	57
शतलज	61
झेलम	63
सरयू	65
गंडकी	69
बागमती	71
कोसी	73
विशाला	79
नर्मदा	83
क्षिप्रा	89
बेतवा	93
सोन	97
ब्रह्मपुत्र	101
चंबल	105
केन	109
गोदावरी	113
कृष्णा	119

## ■ खण्ड - तीन : नदी-संक्षेप

127 - 136

वाणगंगा, रावी, व्यास, रामगंगा, कालीगंगा, ताप्ती	129
महानदी, तवा, हसदो, कालीसिंध, इन्द्रावती	130
बनास, माही, पार्वती, लूनी, सावरमती, आयड़, पिनाकिन, टौंस	131
पेरियर, उभियम, हुगली, बौगाई, दामोदर, मंदाकिनी, शिवनाथ,	132
रिहंद, कन्हार, माँड, अरपा, सबरी, हांप	133
पेरी, ईब, मनियारी, लीलागर, तांदुला	134
खारून, जोंक, बोराई नदी, कोटरी, डंकनी और शंखनी, नारंगी नदी	135
गुदरा, बाघ	136

46



ग्रंथलोक

( प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता )

10296, गली नं० 1, वेस्ट गोरखपार्क

( निकट दुर्गा मंदिर ), जवाहरनगर, दिल्ली-110032

फोन : 011-65829441

